

1



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Subsection (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 564] नई दिल्ली, शनिवार, दिसम्बर 26, 1981/वीथ 5, 1903  
No. 564] NEW DELHI, SATURDAY, DEC. 26, 1981/ PAUSA 5, 1903

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह असंग्र संकलन के रूप में  
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate  
compilation

श्रम मंत्रालय

अभिसूचना

नई दिल्ली, 26 दिसम्बर, 1981

का.भा. 911 (अ) :—कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 1 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा 27 दिसम्बर, 1981 को उस तारीख के रूप में नियत करती है, जिसको उक्त अधिनियम के अध्याय 4 (धारा 44 और 45 के सिवाय जो पहले ही प्रवृत्त की जा चुकी हैं) और अध्याय 5 और 6 (धारा 76 की उप-धारा (1) और धारा 77, 78, 79 और 81 के सिवाय जो पहले ही प्रवृत्त की जा चुकी हैं) के

उपबन्ध पांडिचेरी संघ राज्य क्षेत्र के निम्नलिखित क्षेत्र में प्रवृत्त होंगे, अर्थात् :—

“विलियानूर सब-तालुक में विलियानूर, कुरुम्बापट, ओडियामपट, थिरुकानजी, उरुवेयार, मंगालम, साथामंगलम, किजहूर, अरीयूर, थोडामानाथम, रामनाथापुरम, वूडापक्कम, पिल्लेयाकुप्पम, ओला-वेकल, उसुदु, थट्टिपट, करासौर और सेदारापट के राजस्व ग्रामों के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र और बहौर सब-तालुक में बहौर, कुरुवी-नाथम, ईरुलानचण्डी, परीकालपट, मानमंडू, कांडुवानूर, कारा-यामपूथुर, पानयाडीकुप्पम, अरनागानूर, सलियामंडू, विरुमापक्कम, पिलारकुप्पम, मानापट और उत्तचीमंडू के राजस्व ग्रामों के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र ।”

[संख्या एस-38013/31/81-एच. आई.]

पी. सिन्हा, उप-सचिव

## MINISTRY OF LABOUR

### NOTIFICATION

New Delhi, the 26th December, 1981

**S.O. 911(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 1 of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), the Central Government hereby appoints the 27th day of December, 1981 as the date on which the provisions of Chapter IV (except sections 44 and 45 which have already been brought into force) and Chapters V and VI (except sub-section (1) of section 76 and sections 77, 78, 79 and 81 which have already been brought into force) of the said Act shall come into force in the following areas in the Union Territory of Pondicherry, namely :—

“The areas within the revenue villages of Villianur, Kurumbapet, Odiam-pet, Thirukkanji, Uruaiyar, Mangalam, Sathamangalam, Kizhur Ariyur Thondamanatham, Ramanathapuram, Koodapakkam, Pillayar-kuppam, Olavaikkal, Ussudu, Thuttipet, Karassur and Sedarapet in the Villianur, Sub-Taluk and the areas within the revenue villages of Bahour, Kuruvinaathan, Irudachanthy, Paricalpet, Manamedu, Kadu-vanur, Karayamputhur, Panayalikulam, Aranganoor, Seliamedu, Kirumampakkam, Pillayar-kuppam, Manampet and Utchimedu in the Bahour Sub-Taluk”

[F. No. S-38013/31/81-HI]

P. SINHA, Dy. Secy.